

Urge India to maintain its role to help stop war in Gaza: Iran

SHUBHAJIT ROY
New Delhi, April 18

AT THE HEART of the Iran-Israel crisis is the war in Gaza and Iran has urged India to "maintain its active role through international bodies,"

including the United Nations Security Council, to halt the war in Gaza, Iran's Ambassador to New Delhi Iraj Elahi told *The Indian Express* on Thursday. His remarks come the day Ann Tessa Joseph, a female cadet who was among the 17 Indians

onboard container vessel MSC Aries that was seized by Iranian military due to its alleged links with Israel over the weekend, returned to Kochi.

The Ministry of External Affairs said that the Indian embassy in Tehran is in touch

with the remaining 16 Indian crew members of the container vessel.

"Iran has never sought to spread war and harm civilians. The safety of civilians in the region is our priority. The security of people is important and


it doesn't matter if they are Indian or Iranian or Palestinian or any other nationality," Elahi said.

Referring to Israel as "occupied Palestine" -- a characterisation that Israel strongly objects to -- and the Israeli

government as "the Zionist regime," Elahi said that Iran's "military mission" had been "accomplished."

Iran's attack, with drones, ballistic missiles and Cruise missiles, followed a suspected Israeli strike on April

1 on an Iranian consular building in Syria's Damascus that killed 12 people, including a senior general. Iran had vowed to avenge the strike. Israel was able to thwart the attacks, saying that 99% of them were stalled by its powerful air defence system. New Delhi has called for 'immediate de-escalation'.



PMML to seek legal views on ownership of Nehru papers

DIVYA A & LEENA MISRA
New Delhi, Ahmedabad, April 18

THE PRIME MINISTERS Museum and Library (PMML) — formerly Nehru Memorial Museum & Library, or NMMML — is planning to seek legal opinion on the ownership and custodianship of private papers in its collection, including those of former PM Jawaharlal Nehru, which were donated after 1971 by Indira Gandhi and later by Sonia Gandhi, *The Indian Express* has learned.

This follows the AGM of the PMML, chaired by Defence Minister Rajnath Singh in February, during which a large part of the discussion centred on Nehru's private papers in the PMML's collection, out of which 51 boxes full were taken back by Congress leader Sonia Gandhi in May 2008.

The "issue" of Sonia Gandhi having reclaimed a part of the private papers donated by the Gandhi family was discussed in the AGM held on February 13, which was also attended by FM Nirmala Sitharaman and Education minister Dharmendra Pradhan, among others.

During the meeting, the members were informed that an "internal enquiry" was done on the matter which revealed that in March 2008 M V Rajan visited PMML (on behalf of Sonia Gandhi) to segregate private papers and official papers in the Nehru collection and all personal papers identified by him were sent to Sonia Gandhi in 51 boxes on May 5, 2008. Even as some members were of the view that all those papers should be recalled, there was no clarity on their legal status. A consensus was then reached to seek legal opinion on "ownership, custodianship, copyright issues, and the use of these archival collections".

SC reserves verdict on industrial alcohol regulation



New Delhi, April 18

THE SUPREME COURT reserved its verdict on Thursday on the issue of overlapping powers of the Centre and states with regard to the production, manufacturing, supply and regulation of industrial alcohol. A nine-judge Constitution bench headed by CJI DY Chandrachud heard arguments from Attorney General R Venkataramani, Solicitor General Tushar Mehta, senior advocates Dinesh Dwivedi and Arvind P Datar, who appeared on behalf of the UP government, and other lawyers representing other states.

Industrial alcohol is not for human consumption. While Entry 8 in the State List under the 7th Schedule of the Constitution gives the states the power to legislate on the manufacture, possession, transport and sale of 'intoxicating liquors', Entry 52 of the Union List and Entry 33 of the Concurrent List mention industries whose control is 'declared by Parliament by law to be expedient in public interest'. PTI

This advertisement is for information purposes only and neither constitutes an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities nor for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated March 20, 2024 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with Bombay Stock Exchange Limited ("BSE"), and also filed with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") for information and dissemination on the SEBI's website pursuant to the proviso to Regulation 3 of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (SEBI ICDR Regulations).

IYKOT IYKOT HITECH TOOLROOM LIMITED

Our Company was originally incorporated as "Elcot-Hitech Toolroom Limited", bearing CIN No. L27209TN1991PLC021330 vide Certificate of Incorporation dated 29th day of August 1991 under the provisions of the Companies Act, 1956. Subsequently, the Target Company has changed its name from "Elcot-Hitech Toolroom Limited" to "Iykot Hitech Toolroom Limited" and a fresh Certificate of Incorporation consequent upon change of name and objects was issued by Registrar of Companies, Chennai on December 29, 2000 under the Companies Act, 1956. For change in Name and Change in Registered Office please refer to "Chapter: General Information" on Page 33 of this Letter of Offer ("LOF").

OUR PROMOTERS: MS ANNJANA DUGAR, MS LIKHITTA DUGAR, MR SIDDHARTH NANDULAL, MR SUNIL CHANDRAKANT, MR RAJAPANDIAN, MR LAKSHNMANAN, MR BALASUBRAMANION R, MR RAM KUMAR S R, MS RAJALAKSHMI I, MR PANDYA K V AND ELECTRONICS CORPORATION OF TAMIL NADU LIMITED

ISSUE OF UP TO 1,41,96,000 PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 7 PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 2 PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING TO ₹ 993.72 LACS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 7 (SEVEN) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 3 (THREE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON APRIL 03, 2024 ("RECORD DATE") (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 127 OF THIS LETTER OF OFFER.

*Assuming full subscription with respect to Rights Equity Shares

ISSUE OPENS ON: WEDNESDAY APRIL 24, 2024	LAST DATE FOR ON MARKET RENUNCIATION** TUESDAY, APRIL 30, 2024	ISSUE CLOSES ON* WEDNESDAY, MAY 08, 2024
---	---	---

*Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncee(s) on or prior to the Issue Closing Date.
**Our Board or a duly authorized committee thereof will have the right to extend the Issue period as it may determine from time to time but not exceeding 30 (thirty) days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date). Further, no withdrawal of Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.

THE ISSUE PRICE OF EACH EQUITY SHARE IS ONE POINT FOUR TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE

ASBA*	Simple, Safe, Smart way of application - Make use of it!!!	*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For further details, check section on ASBA below.
--------------	--	---

Facilities for application in this Issue:
ASBA Facility:
In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, the Rights Issue Circulars and the ASBA Circulars all investors desiring to make an application in this issue are mandatorily required to use the ASBA process only. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For details refer to "Terms of the Issue - Making of an application through the ASBA process" on page 130 of the Letter of Offer.

Please note that subject to SCSBs complying with the requirements of the SEBI circular bearing reference number CIR/CFD/DIL/13/2012 dated September 25, 2012, within the periods stipulated therein, Applications may be submitted at the Designated Branches of the SCSBs. Further, in terms of the SEBI circular bearing reference number CIR/CFD/DIL/1/2013 dated January 2, 2013, it is clarified that for making Applications by SCSBs on their own account using ASBA facility, each such SCSB should have a separate account in its own name with any other SEBI registered SCSB(s). Such account shall be used solely for the purpose of making an Application in this Issue and clear demarcated funds should be available in such account for such an Application.

CREDIT OF RIGHTS ENTITLEMENTS IN DEMAT ACCOUNTS OF ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS
Pursuant to provisions of the SEBI ICDR Regulations and the SEBI Rights Issue Circulars and in terms of the Letter of Offer, the Rights Entitlements of the Eligible Equity Shareholders will be credited in their respective demat account and shall be admitted for trading on the Stock Exchange under the ISIN INE079L20011 subject to requisite approvals. For details of credit of the Rights Entitlements, see "Terms of the Issue - Credit of Rights Entitlements in demat accounts of Eligible Equity Shareholders" on page 139 of the Letter of Offer.

Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialised form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of subscribing to Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two Working Days prior to the Issue Closing Date, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date. The Shareholder who failed to provide their demat details in the stipulated time then their rights entitlement shall lapse and shall not be eligible to apply in this issue.

The Eligible Equity Shareholders shall send a letter to the Registrar containing the name(s), address, e-mail address, contact details and the details of their demat account along with copy of self-attested PAN and self-attested client master sheet of their demat account either by email, post, speed post, courier, or hand delivery at www. https://rights.cameoindia.com/iykot so as to reach to the Registrar no later than two Working Days prior to the Issue Closing Date.

Prior to the Issue Opening Date, the Rights Entitlements of those Eligible Equity Shareholders, among others, who hold Equity Shares in physical form, and whose demat account details are not available with our Company or the Registrar, shall be credited in a demat suspense escrow account opened by our Company.

PROCEDURE FOR APPLICATION: In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, SEBI Rights Issue Circulars and ASBA Circulars, all investors desiring to make an application in this issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through ASBA. For details of procedure for application by the resident eligible shareholders holding equity shares in physical form as on record date, please see "Procedure for application by eligible equity shareholders holding equity shares in physical form" on page 240 of the Letter of Offer.

Procedure for Application through the ASBA process: Investors desiring to make an Application in this Issue through ASBA process, may submit the Application Form to the Designated Branch of the SCSB or online/electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) for authorising such SCSB to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts. Investors should ensure that they have correctly submitted the Application Form, or have otherwise provided an authorisation to the SCSB, via the electronic mode, for blocking funds in the ASBA Account equivalent to the Application Money mentioned in the Application Form, as the case may be, at the time of submission of the Application. For the list of banks which have been notified by SEBI to act as SCSBs for the ASBA process, please refer to https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?do=RecognisedFPI=yes&inlmd=34. For details on Designated Branches of SCSBs collecting the Application Form, please refer the above-mentioned link.

Application by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form: Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialised form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of subscribing to Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two Working Days prior to the Issue Closing Date, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date.

PLEASE NOTE THAT THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS WHO HOLD EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM AS ON RECORD DATE AND WHO HAVE NOT FURNISHED THE DETAILS OF THEIR RESPECTIVE DEMAT ACCOUNTS TO THE REGISTRAR OF OUR COMPANY AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE ISSUE CLOSING DATE, SHALL NOT BE ELIGIBLE TO MAKE AN APPLICATION FOR RIGHTS EQUITY SHARES AGAINST THEIR RIGHTS ENTITLEMENTS WITH RESPECT TO THE EQUITY SHARES HELD IN PHYSICAL FORM.

Allotment of rights equity shares in dematerialised form: Please note that the rights equity shares applied for in this issue can be allotted only in dematerialised form and to the same depository account in which our equity shares are held by such investor on the record date.

Despatch of the Abridged Letter of Offer (ALOF) and application: The despatch of the ALOF and the application form was completed on April 16, 2024 by the Registrar to the Issue.

Credit of Rights Entitlements in demat accounts of Eligible Equity Shareholders: In accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circular, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialised form only. Prior to the Issue Opening Date, our Company shall credit the Rights Entitlements to (i) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholders holding the Equity Shares in dematerialised form; and (ii) a demat suspense escrow account opened by our Company, for the Eligible Equity Shareholders which would comprise Rights Entitlements relating to (a) Equity Shares held in a demat suspense account pursuant to Regulation 39 of the SEBI Listing Regulations; or (b) Equity Shares held in the account of EPF authority; or (c) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholder which are frozen or details of which are unavailable with our Company or with the Registrar on the Record Date; or (d) Equity Shares held by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date where details of demat accounts are not provided by Eligible Equity Shareholders to our Company or Registrar; or (e) credit of the Rights Entitlements returned/reversed/failed; or (f) the ownership of the Equity Shares under dispute, including any court proceedings, as applicable or (g) non-institutional equity shareholders in the United States.

Applications on Plain Paper under ASBA process: An Eligible Equity Shareholder who is eligible to apply under the ASBA process may make an Application to subscribe to this Issue on plain paper. An Eligible Equity Shareholder shall submit the plain paper Application to the Designated Branch of the SCSB for authorising such SCSB to block Application Money in the said bank account maintained with the same SCSB. Applications on plain paper will not be accepted from any address outside India.

Alternatively, Eligible Equity Shareholders may also use the Application Form available online on the websites of our Company, the Registrar to the Issue or the Stock Exchanges to provide requisite details.

Please note that the Eligible Equity Shareholders who are making the Application on plain paper shall not be entitled to renounce their Rights Entitlements and should not utilize the Application Form for any purpose including renunciation even if it is received subsequently.

The application on plain paper, duly signed by the Eligible Equity Shareholder including joint holders, in the same order and as per specimen recorded with his bank, must reach the office of the Designated Branch of the SCSB before the Issue Closing Date and should contain the following particulars:

- Name of our Issuer, being Iykot Hitech Toolroom Limited;
- Name and address of the Eligible Equity Shareholder including joint holders (in the same order and as per specimen recorded with our Company or the Depository);
- Registered Folio Number/DP and Client ID No.;
- Number of Equity Shares held as on Record Date;
- Allotment option preferred - Only Demat form;
- Number of Rights Equity Shares entitled to;
- Number of Rights Equity Shares applied for;
- Number of Additional Rights Equity Shares applied for, if any;
- Total number of Rights Equity Shares applied for within the Right Entitlements;
- Total amount paid at the rate of ₹ 1.75/- per Rights Equity Share;
- Details of the ASBA Account such as the account number, name, address and branch of the relevant SCSB;
- In case of NR Eligible Equity Shareholders making an application with an Indian address, details of the NRE/FN/RRO Account such as the account number, name, address and branch of the SCSB with which the account is maintained;
- Except for Applications on behalf of the Central or State Government, the residents of Sikkim and officials appointed by the courts, PAN of the Eligible Equity Shareholder and for each Eligible Equity Shareholder in case of joint names, irrespective of the total value of the Rights Equity Shares applied for pursuant to the Issue. Documentary evidence for exemption to be provided by the applicants;
- Authorisation to the Designated Branch of the SCSB to block an amount equivalent to the Application Money in the ASBA Account;
- Signature of the Eligible Equity Shareholder (in case of joint holders, to appear in the same sequence and order as they appear in the records of the SCSB);
- Additionally, all such Applicants are deemed to have accepted the following:

"I/We will not offer, sell or otherwise transfer any of the Equity Shares which may be acquired by us in any jurisdiction or under any circumstances in which such offer or sale is not authorized or to any person to whom it is unlawful to make such offer, sale or invitation except under circumstances that will result in compliance with any applicable laws or regulations. We satisfy, and each account for which we are acting satisfies, all suitability standards for investors in investments of the type subscribed for herein imposed by the jurisdiction of our residence.

I/We understand and agree that the Rights Entitlement and Rights Equity Shares may not be reoffered, resold, pledged or otherwise transferred except in an offshore transaction in compliance with Regulation S, or otherwise pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the US Securities Act.

I/We (i) am/are, and the person, if any, for whose account I/we am/are acquiring such Rights Entitlement, and/or the Equity Shares, is/are outside the United States or a Qualified Institutional Buyer (as defined in the US Securities Act), and (ii) is/are acquiring the Rights Entitlement and/or the Equity Shares in an offshore transaction meeting the requirements of Regulation S or in a transaction exempt from, or not subject to, the registration requirements of the US Securities Act.

I/We acknowledge that the Company, their affiliates and others will rely upon the truth and accuracy of the foregoing representations and agreements."

In cases where multiple Application Forms are submitted for Applications pertaining to Rights Entitlements credited to the same demat account or in demat suspense escrow account, including cases where an Investor submits Application Forms along with a plain paper Application, such Applications shall be liable to be rejected.

Investors are requested to strictly adhere to these instructions. Failure to do so could result in an Application being rejected, with our Company and the Registrar not having any liability to the Investor. The plain paper Application format will be available on the website of the Registrar at www. https://rights.cameoindia.com/iykot. Our Company and the Registrar shall not be responsible if the Applications are not uploaded by SCSB or funds are not blocked in the Investors ASBA Accounts on or before the Issue Closing Date.

Last date for Application: The last date for submission of the duly filled in the Application Form or a plain paper Application is, Wednesday, May 08, 2024, i.e., Issue Closing Date. Our Board or any committee thereof may extend the said date for such period as it may determine from time to time, subject to the Issue Period not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date).

If the Application Form is not submitted with a SCSB nor uploaded with the Stock Exchanges and the Application Money is not blocked with the SCSB on or before the Issue Closing Date or such date as may be extended by our Board or any committee thereof, the invitation to offer contained in the Letter of Offer shall be deemed to have been declined and our Board or any committee thereof shall be at liberty to dispose of the Rights Equity Shares hereby offered, as provided under the section, "Basis of Allotment" on page 148 of the Letter Of Offer.

Procedure for Renunciation: The Investors may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts, either in full or in part (a) by using the secondary market platform of the Stock Exchanges; or (b) through an off-market transfer, during the Renunciation Period. The Investors should have the demat Rights Entitlements credited/lying in his/her own demat account prior to the renunciation. The trades through On Market Renunciation and Off Market Renunciation will be settled by transferring the Rights Entitlements through the depository mechanism. Investors may be subject to adverse foreign, state or local tax or legal consequences as a result of trading in the Rights Entitlements. Investors who intend to trade in the Rights Entitlements should consult their tax advisor or stock broker regarding any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage) that may be levied for trading in Rights Entitlements. The Lead Manager and our Company accept no responsibility to bear or pay any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage), and such costs will be incurred solely by the Investors. Please note that the Rights Entitlements which are neither renounced nor subscribed by the Investors on or before the Issue Closing Date shall lapse and shall be extinguished after the Issue Closing Date.

a. On Market Renunciation
The Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts by trading/selling them on the secondary market platform of the Stock Exchanges through a registered stock-broker in the same manner as the existing Equity Shares of our Company.

In this regard, in terms of provisions of the SEBI ICDR Regulations and the SEBI Rights Issue Circulars, the Rights Entitlements credited to the respective demat accounts of the Eligible Equity Shareholders shall be admitted for trading on the Stock Exchange under ISIN : ISIN INE079L20011 subject to requisite approvals. Prior to the Issue Opening Date, our Company will obtain the approval from the Stock Exchange for trading of Rights Entitlements. No assurance can be given regarding the active or sustained On Market Renunciation or the price at which the Rights Entitlements will trade. The details for trading in Rights Entitlements will be as specified by the Stock Exchanges from time to time.

The Rights Entitlements are tradable in dematerialized form only. The market lot for trading of Rights Entitlements is one Rights Entitlement.

The On Market Renunciation shall take place only during the Renunciation Period for On Market Renunciation, i.e., from Wednesday April 24, 2024 to Tuesday, April 30, 2024 (both days inclusive).

The Investors holding the Rights Entitlements who desire to sell their Rights Entitlements will have to do so through their registered stock-brokers by quoting the ISIN INE079L20011 and indicating the details of the Rights Entitlements they intend to trade. The Investors can place order for sale of Rights Entitlements only to the extent of Rights Entitlements available in their demat account.

The On Market Renunciation shall take place electronically on secondary market platform of BSE under automatic order matching mechanism and on "T+1 rolling settlement basis", where "T" refers to the date of trading. The transactions will be settled on trade-for-trade basis. Upon execution of the order, the stock-broker will issue a contract note in accordance with the requirements of the Stock Exchanges and the SEBI.

b. Off Market Renunciation
The Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts by way of an off-market transfer through a depository participant. The Rights Entitlements can be transferred in dematerialised form only.

Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncee on or prior to the Issue Closing Date to enable Renouncees to subscribe to the Equity Shares in the Issue.

The Investors holding the Rights Entitlements who desire to transfer their Rights Entitlements will have to do so through their depository participant by issuing a delivery instruction slip quoting the ISIN INE079L20011, the details of the buyer and the details of the Rights Entitlements they intend to transfer. The buyer of the Rights Entitlements (unless already having given a standing receipt instruction) has to issue a receipt instruction slip to their depository participant. The Investors can transfer Rights Entitlements only to the extent of Rights Entitlements available in their demat account.

The instructions for transfer of Rights Entitlements can be issued during the working hours of the depository participants.

Please note that the Rights Entitlements which are neither renounced nor subscribed by the Investors on or before the Issue Closing Date shall lapse and shall be extinguished after the Issue Closing Date.

Listing and trading of the Equity Shares to be issued pursuant to this Issue
The existing Equity Shares are listed and traded on BSE (Scrip code: 522245) under the ISIN: INE079L01013. The Rights Equity Shares shall be credited to a temporary ISIN which will be frozen until the receipt of the final listing/trading approvals from the Stock Exchanges. Upon receipt of such listing and trading approvals, the Equity Shares shall be debited from such temporary ISIN and credited to the new ISIN for the Equity Shares and thereafter be available for trading and the temporary ISIN shall be permanently deactivated in the depository system of CDSL and NSDL.

Disclaimer clause of BSE: "It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited."

Availability of issue materials: In accordance with the SEBI ICDR Regulations, the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other issue material will be sent/ dispatched only to the Eligible Equity Shareholders who have provided Indian address and who have made a request in this regard. In case such Eligible Equity Shareholders have provided their valid e-mail address, the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other issue material will be sent only to their valid e-mail address and in case such Eligible Equity Shareholders have not provided their e-mail address, then the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other issue material will be dispatched, on a reasonable effort basis, to the Indian addresses provided by them.

Investors can access the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer and the Application Form (provided that the Eligible Equity Shareholder is eligible to subscribe for the Equity Shares under applicable laws) on the websites of:

- a) our Company at www.iykot.com; b) the Registrar to the Issue at www. https://rights.cameoindia.com/iykot; and c) the Stock Exchange at www.bseindia.com;

Allotment Banker Account – ICICI Bank Limited
Bankers to the issue and Refund Banker – ICICI Bank Limited
For Risk Factors and other details, kindly refer page No. 19 of the Letter of Offer



Other important links and helpline
The Investors can visit following links for the below-mentioned purposes:

- a. Frequently asked questions and online/electronic dedicated investor helpdesk for guidance on the Application process and resolution of difficulties faced by the Investors: www. https://rights.cameoindia.com/iykot.

- b. Update of Indian address/ e-mail address/ phone or mobile number in the records maintained by the Registrar or our Company: www. https://rights.cameoindia.com/iykot

- c. Update of demat account details by Eligible Equity Shareholders holding shares in physical form: www. https://rights.cameoindia.com/iykot

- d. Submission of self-attested PAN, client master sheet and demat account details by non-resident Eligible Equity Shareholders: www. https://rights.cameoindia.com/iykot

REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
	
CAMEO CORPORATE SERVICES LIMITED Subramanian Building, No. 01, Club House Road, Chennai- 600 002, Tamil Nadu, India. Telephone: +91 44 4002 0700/ 0710/ 2846 0390 Facsimile: N.A. Email: cameo@cameoindia.com; Website: www.cameoindia.com; Investor grievance e-mail: investor@cameoindia.com Contact Person: Sreepriya K.; SEBI Registration No.: INR000003753; Validity of Registration: Permanent	P Udayakumar , Company Secretary and Compliance Officer 131/2, Thiruneermalai Road, Nagalanki, Chromepet, Chennai – 600 044, Tamil Nadu Tel. No. +91 44-43162280; Email: info@iykot.com

Investor may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-issue or post-issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving complete details such as name, address of the Applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Form, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA Investors. For details on the ASBA process, see "Terms of the Issue" on page 127 of the Letter of Offer.

FOR IYKOT HITECH TOOLROOM LIMITED
On behalf of Board of Directors
Sd/-
P UDAYAKUMAR
Company Secretary and Compliance Officer

IYKOT HITECH TOOLROOM LIMITED is proposing, subject to market conditions and other considerations, to make a rights issue of its Equity Shares, and has filed a Letter of Offer with BSE Limited on April 18, 2024. The letter of offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the stock exchange at www.bseindia.com, the Company website at www.iykot.com and the website of registrar at www. https://rights.cameoindia.com/iykot. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer filed with the SEBI and the stock exchanges, including the section titled "Risk Factors" on Page 19 of the Letter of Offer, for details of the same, when available.

This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer or sale of securities in any jurisdiction, including the United States, and any securities described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the Company and that will contain detailed information about the Company and management, as well as financial statements. However, no public offering of securities is being made in the United States.

खेत में लगाए गए फंदे में फंसकर तेंदुए की मौत, किसान को हिरासत में लिया

नई दिल्ली, 18 अप्रैल (यूरो)।

मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में एक खेत में लगाए गए फंदे में फंसकर गुस्वार को तेंदुए की मौत हो गई। इस मामले में एक किसान को हिरासत में

लेकर पूछताछ की जा रही है। वन विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। वन मंडलाधिकारी (डीएफओ) एमएस सोलंकी ने बताया कि मानपुर के जंगली इलाके में एक खेत में लगाए गए फंदे में फंसा तेंदुआ मृत अवस्था में पाया गया।

भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में बाघ 'पन्ना' की मौत

भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में 14 वर्षीय एक बाघ की मौत हो गई है। पशु चिकित्सक ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बाघ 'पन्ना' की बुधवार-गुरुवार रात में अज्ञात संबंधी समस्याओं के कारण मौत हो गई। उद्यान के पशुचिकित्सक डा. अतुल गुप्ता ने कहा कि बाघ के पिछले पैर भी कमजोर थे।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत वितरण मण्डल, बाटाली, अकबरपुर, कानपुर देहात
अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

एतद्वारा कार्यालय विद्युत वितरण मण्डल-कानपुर देहात के प्रक्रिका-494/वि०वि०/मं०का०दे०/दिनांक 11.03.2024 के माध्यम से ई-निविदा नं०-154/वि०वि०/मं०का०दे०/2023-24 प्रकाशित की गई, परन्तु खण्डों के अंतर्गत प्रदान न होने के कारण जेब पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया। जेब पोर्टल-निविदा को दिनांक 18.04.2024 को ई-टेंडर वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर अपलोड किया जा रहा है।

पत्र संख्या- 877 / वि०वि०/मं०का०दे० (एसओ पीओ सिंह)
दिनांक- 18.04.2024 अधीक्षण अभियन्ता
"सुनहरा भविष्य बनाये, राष्ट्रहित में बिजली बचाए"

सुभाष अरोड़ा इन्वैस्टमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 207, कुशल नगर, 32-33, मेहर प्लेस, दक्षिणी दिल्ली (डीएल) -110019
संख्या : 981167983
ईमेल : saarora@gmail.com
सीआरएन : U65100DL1981PTCO12000
एतद्वारा सूचित किया जाता है कि पंजीकृत प्रमाणपत्र जिसकी सी. नं. बी-1403139 है जो नीली ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एचसीएफसी) का है, जो ग्राहक / ग्राहक को है। सोमे डूय नगर प्रमाणपत्र से अग्रसर है कि वे दूर 207 कुशल नगर 32-33, मेहर प्लेस, दक्षिणी दिल्ली-110019 स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में वापस कर दें। इसके अतिरिक्त बंदिनाम तत्वों द्वारा पंजीकृत प्रमाणपत्र के किसी भी दुरुपयोग के विरुद्ध प्रत्येक को सावधानी भी किया जाता है।
सुभाष अरोड़ा (निदेशक)
सीआरएन : 00059851

This advertisement is for information purposes only and neither constitutes an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities nor for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated March 20, 2024 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with Bombay Stock Exchange Limited ("BSE"), and also filed with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") for information and dissemination on the SEBI's website pursuant to the proviso to Regulation 3 of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (SEBI ICDR Regulations).

Ykot IYKOT HITECH TOOLROOM LIMITED

Our Company was originally incorporated as "Elcot-Hitech Toolroom Limited", bearing CIN No. L27209TN1991PLC021330 vide Certificate of Incorporation dated 29th day of August 1991 under the provisions of the Companies Act, 1956. Subsequently, the Target Company has changed its name from "Elcot-Hitech Toolroom Limited" to "Ykot Hitech Toolroom Limited" and a fresh Certificate of Incorporation consequent upon change of name and objects was issued by Registrar of Companies, Chennai on December 29, 2000 under the Companies Act, 1956. For change in Name and Change in Registered Office please refer to Chapter: General Information on Page 33 of this Letter of Offer ("LOF").
Registered Office: 13/12, Thiruneermalai Road, Nagalkeni, Chromepet, Chennai - 600 044 Tamil Nadu, India. Tel. No. +91-44-43162280; E-mail: info@ykot.com; Website: www.ykot.com Contact Person: P Udayakumar, Company Secretary and Compliance Officer; Corporate Identity Number: L27209TN1991PLC021330

OUR PROMOTERS: MS ANNAJANA DUGAR, MS LIKHITHA DUGAR, MR SIDDHARTH NANDULAL, MR SUNIL CHANDRAKANT, MR RAJAPANDIAN, MR LAKSHNMANAN, MR BALASUBRAMANIAN R, MR RAM KUMAR S R, MS RAJALAKSHMI I, MR PANDYA K V AND ELECTRONICS CORPORATION OF TAMIL NADU LIMITED

ISSUE OF UP TO 1,41,96,000 PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 7 PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 2 PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING TO ₹ 993.72 LACS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 7 (SEVEN) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 3 (THREE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON APRIL 03, 2024 ("RECORD DATE") (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 127 OF THIS LETTER OF OFFER.

*Assuming full subscription with respect to Rights Equity Shares

NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

**ISSUE OPENS ON:
WEDNESDAY APRIL 24, 2024**

LAST DATE FOR ON MARKET RENUNCIATION
TUESDAY, APRIL 30, 2024**

**ISSUE CLOSES ON*
WEDNESDAY, MAY 08, 2024**

*Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncee(s) on or prior to the Issue Closing Date.

*Our Board or a duly authorized committee thereof will have the right to extend the issue period as it may determine from time to time but not exceeding 30 (thirty) days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date). Further, no withdrawal of Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.

THE ISSUE PRICE OF EACH EQUITY SHARE IS ONE POINT FOUR TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE

ASBA*

Simple, Safe, Smart way of application - Make use of it!!!

*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For further details, check section on ASBA below.

Facilities for application in this Issue:

ASBA Facility:

In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, the Rights Issue Circulars and the ASBA Circulars all investors desiring to make an application in this issue are mandatorily required to use the ASBA process only. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For details refer to "Terms of the Issue - Making of an application through the ASBA process" on page 130 of the Letter of Offer.

Please note that subject to SCSEs complying with the requirements of the SEBI circular bearing reference number CIR/CFD/DIL/13/2012 dated September 25, 2012, within the periods stipulated therein, Applications may be submitted at the Designated Branches of the SCSEs. Further, in terms of the SEBI circular bearing reference number CIR/CFD/DIL/1/2013 dated January 2, 2013, it is clarified that for making Applications by SCSEs on their own account using ASBA facility, each such SCSE should have a separate account in its own name with any other SEBI registered SCSE(s). Such account shall be used solely for the purpose of making an Application in this Issue and clear demarcated funds should be available in such account for such an Application.

CREDIT OF RIGHTS ENTITLEMENTS IN DEMAT ACCOUNTS OF ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS

Pursuant to provisions of the SEBI ICDR Regulations and the SEBI Rights Issue Circulars and in terms of the Letter of Offer, the Rights Entitlements of the Eligible Equity Shareholders will be credited in their respective demat account and shall be admitted for trading on the Stock Exchange under the ISIN INE079L20011 subject to requisite approvals. For details of credit of the Rights Entitlements, see "Terms of the Issue - Credit of Rights Entitlements in demat accounts of Eligible Equity Shareholders" on page 139 of the Letter of Offer.

Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements of Equity Shares shall be made in dematerialised form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of subscribing to Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two Working Days prior to the Issue Closing Date, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date. The Shareholder who failed to provide their demat details in the stipulated time then their rights entitlement shall lapse and shall not be eligible to apply in this issue.

The Eligible Equity Shareholders shall send a letter to the Registrar containing the name(s), address, e-mail address, contact details and the details of their demat account along with copy of self-attested PAN and self-attested client master sheet of their demat account either by email, post, speed post, courier, or hand delivery at [www.https://rights.cameoindia.com/ykot](https://rights.cameoindia.com/ykot) so as to reach to the Registrar no later than two Working Days prior to the Issue Closing Date.

Prior to the Issue Opening Date, the Rights Entitlements of those Eligible Equity Shareholders, among others, who hold Equity Shares in physical form, and whose demat account details are not available with our Company or the Registrar, shall be credited in a demat suspense escrow account opened by our Company.

PROCEDURE FOR APPLICATION: In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, SEBI Rights Issue Circulars and ASBA Circulars, all investors desiring to make an application in this issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through ASBA. For details of procedure for application by the resident eligible shareholders holding equity shares in physical form as on record date, please see "Procedure for application by eligible equity shareholders holding equity shares in physical form" on page 240 of the Letter of Offer.

Procedure for Application through the ASBA process: Investors desiring to make an Application in this Issue through ASBA process, may submit the Application Form to the Designated Branch of the SCSE or online/electronic Application through the website of the SCSEs (if made available by such SCSE) for authorising such SCSE to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts. Investors should ensure that they have correctly submitted the Application Form, or have otherwise provided an authorisation to the SCSE, via the electronic mode, for blocking funds in the ASBA Account equivalent to the Application Money mentioned in the Application Form, as the case may be, at the time of submission of the Application. For the list of banks which have been notified by SEBI as SCSEs for the ASBA process, please refer to <https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFp=yes&intmlid=34>. For details on Designated Branches of SCSEs please refer the Application Form, please refer the above-mentioned link.

Application by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form: Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialised form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of subscribing to Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two Working Days prior to the Issue Closing Date, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date.

PLEASE NOTE THAT THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS WHO HOLD EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM AS ON RECORD DATE AND WHO HAVE NOT FURNISHED THE DETAILS OF THEIR RESPECTIVE DEMAT ACCOUNTS TO THE REGISTRAR OF OUR COMPANY AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE ISSUE CLOSING DATE, SHALL NOT BE ELIGIBLE TO MAKE AN APPLICATION FOR RIGHTS EQUITY SHARES AGAINST THEIR RIGHTS ENTITLEMENTS WITH RESPECT TO THE EQUITY SHARES HELD IN PHYSICAL FORM.

Allotment of rights equity shares in dematerialised form: Please note that the rights equity shares applied for in this issue can be allotted only in dematerialised form and to the same depository account in which our equity shares are held by such investor on the record date.

Despatch of the Abridged Letter of Offer (ALOF) and application: The despatch of the ALOF and the application form was completed on April 16, 2024 by the Registrar to the Issue.

Credit of Rights Entitlements in demat accounts of Eligible Equity Shareholders: In accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circular, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialised form only. Prior to the Issue Opening Date, our Company shall credit the Rights Entitlements to (i) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholders holding the Equity Shares in dematerialised form; and (ii) a demat suspense escrow account opened by our Company, for the Eligible Equity Shareholders who would comprise Rights Entitlements relating to (a) Equity Shares held in a demat suspense account pursuant to Regulation 39 of the SEBI Listing Regulations; or (b) Equity Shares held in a demat account of IEPF authority; or (c) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholder which are frozen or details of which are unavailable with our Company or with the Registrar on the Record Date; or (d) Equity Shares held by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date where details of demat accounts are not provided by Eligible Equity Shareholders to our Company or Registrar; or (e) credit of the Rights Entitlements returned/reversed/failed; or (f) the ownership of the Equity Shares under dispute, including any court proceedings, as applicable or (g) non-institutional equity shareholders in the United States.

Applications on Plain Paper under ASBA process: An Eligible Equity Shareholder who is eligible to apply under the ASBA process may make an Application to subscribe to this issue on plain paper. An Eligible Equity Shareholder shall submit the plain paper Application to the Designated Branch of the SCSE for authorising such SCSE to block Application Money in the said bank account maintained with the same SCSE. Applications on plain paper will not be accepted from any address outside India.

Alternatively, Eligible Equity Shareholders may also use the Application Form available online on the websites of our Company, the Registrar to the Issue or the Stock Exchanges to provide requisite details.

Please note that the Eligible Equity Shareholders who are making the Application on plain paper shall not be entitled to renounce their Rights Entitlements and should not utilize the Application Form for any purpose including renunciation even if it is received subsequently.

The application on plain paper, duly signed by the Eligible Equity Shareholder including joint holders, in the same order and as per specimen recorded with his bank, must reach the office of the Designated Branch of the SCSE before the Issue Closing Date and should contain the following particulars:

• Name of our Issuer, being Ykot Hitech Toolroom Limited; • Name and address of the Eligible Equity Shareholder including joint holders (in the same order and as per specimen recorded with our Company or the Depository); • Registered Folio Number/ DP and Client ID No.; • Number of Equity Shares held as on Record Date; • Allotment option preferred - Only Demat form; • Number of Rights Equity Shares entitled to; • Number of Rights Equity Shares applied for; • Number of Additional Rights Equity Shares applied for, if any; • Total number of Rights Equity Shares applied for within the Right Entitlements; • Total amount paid at the rate of ₹ 1.75/- per Rights Equity Share; • Details of the ASBA Account such as the account number, name, address and branch of the relevant SCSE; • In case of NR Eligible Equity Shareholders making an application with an Indian address, details of the NRE/FCNR/NRO account such as the account number, name, address and branch of the SCSE with which the account is maintained; • Except for Applications on behalf of the Central or State Government, the residents of Sikkim and officials appointed by the courts, PAN of the Eligible Equity Shareholder and for each Eligible Equity Shareholder in case of joint names, irrespective of the total value of the Rights Equity Shares applied for pursuant to the Issue. Documentary evidence for exemption to be provided by the applicants; • Authorisation to the Designated Branch of the SCSE to block an amount equivalent to the Application Money in the ASBA Account; • Signature of the Eligible Equity Shareholder (in case of joint holders, to appear in the same sequence and order as they appear in the records of the SCSE); • Additionally, all such Applicants are deemed to have accepted the following:

"I/We understand that neither the Rights Entitlement nor the Rights Equity Shares have been, and will be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended ("US Securities Act") or any United States state securities laws, and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States or to the territories or possessions thereof ("United States") or to, or for the account or benefit of a United States person as defined in the Regulation S of the US Securities Act ("Regulation S"). I/We understand the Rights Equity Shares referred to in this application are being offered in India but not in the United States. I/We understand the offering to which this application relates is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or Rights Entitlement for sale in the United States, or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said Rights Equity Shares or Rights Entitlement in the United States. Accordingly, I/We understand this application should not be forwarded to or transmitted in or to the United States at any time. I/We confirm that I/We are not in the United States and understand that neither us, nor the Registrar or any other person acting on behalf of us will accept subscriptions from any person, or the agent of any person, who appears to be, or who we, the Registrar or any other person acting on behalf of us have reason to believe is a resident of the United States "U.S. Person" (as defined in Regulation S) or is ineligible to participate in the Issue under the securities laws of their jurisdiction.

REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
<p>CAMEO CORPORATE SERVICES LIMITED Subramanian Building, No. 01, Club House Road, Chennai-600 002, Tamil Nadu, India. Telephone: +91 44 4002 0700/ 0710/ 2846 0390 Facsimile: N.A. Email: cameo@cameoindia.com; Website: www.cameoindia.com; Investor grievance e-mail: investor@cameoindia.com Contact Person: Sreepriya K.; SEBI Registration No.: INR000003753; Validity of Registration: Permanent</p>	<p>P Udayakumar, Company Secretary and Compliance Officer 13/12, Thiruneermalai Road, Nagalkeni, Chromepet, Chennai - 600 044, Tamil Nadu Tel. No. +91 44-43162280; Email: info@ykot.com</p> <p>Investor may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-issue or post-issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSE, giving complete details such as name, address of the Applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSE where the Application Form, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA Investors. For details on the ASBA process, see "Terms of the Issue" on page 127 of the Letter of Offer.</p>
<p>Place: Chennai Date: April 18, 2024</p>	<p>For IYKOT HITECH TOOLROOM LIMITED On behalf of Board of Directors Sd/- P UDAYAKUMAR Company Secretary and Compliance Officer</p>
<p>IYKOT HITECH TOOLROOM LIMITED is proposing, subject to market conditions and other considerations, to make a rights issue of its Equity Shares, and has filed a Letter of Offer with BSE Limited on April 18, 2024. The letter of offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the stock exchange at www.bseindia.com, is the company website at www.ykot.com and the website of registrar at www.https://rights.cameoindia.com/ykot. Potential investors should note that investment in equity shares involves a higher degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer filed with the SEBI and the stock exchanges, including the section titled "Risk Factors" on Page 19 of the Letter of Offer, for details of the same, when available.</p> <p>This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer or sale of securities in any jurisdiction, including the United States, and any securities described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the Company and that will contain detailed information about the Company and management, as well as financial statements. However, no public offering of securities is being made in the United States.</p>	<p>For IYKOT HITECH TOOLROOM LIMITED On behalf of Board of Directors Sd/- P UDAYAKUMAR Company Secretary and Compliance Officer</p>

सूचना
एतद्वारा सूचना दी जाती है कि शेयर सर्टिफिकेट नंबर 196, फोलियो नंबर 1152 500 शेयर्स, 217001 से 217500 तक विशिष्ट संख्या वाले शेयरों में से 217500 तक विशिष्ट संख्या वाले शेयरों में से 217500 तक विशिष्ट संख्या वाले शेयरों को अग्रसर है कि वे दूर 207 कुशल नगर 32-33, मेहर प्लेस, दक्षिणी दिल्ली-110019 स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में वापस कर दें। इसके अतिरिक्त बंदिनाम तत्वों द्वारा पंजीकृत प्रमाणपत्र के किसी भी दुरुपयोग के विरुद्ध प्रत्येक को सावधानी भी किया जाता है।
सुभाष अरोड़ा (निदेशक)
सीआरएन : 00059851

COURT NOTICE
In The Court Of Ms. Rasveen Kaur Judicial Magistrate First Class-18, Jalandhar
Amrit Malwa Capital Ltd Vs. Ajrudeen
CNR No: PBJL03-043560-2022
Next Date: 24-05-2024
NACT/24105/2022
Publication Issued To: Ajrudeen / S/o Sh. Rasid Resident Of Raipur Alwar Rajasthan
In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 24-05-2024 at 10:00 a.m. for details logon to: <https://highcourtdh.jalandhar.in/2tr> =district_notice&district=Jalandhar
JMJC-18, Jalandhar

सार्वजनिक सूचना
केंद्र सरकार के समक्ष कर्णियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा एतद्वारा के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूर राज्य में स्थानांतरित के लिए विधान।
सीतल देसा भागीदार अभियन्ता, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत कर्णियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा को एक कर्णियों द्वारा कर्णों का प्रस्ताव करती है, जिसमें अपने पंजीकृत कार्यालय को पंजीकृत कार्यालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।
आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माधवदेव सार्वजनिक इंडिया एतद्वारा सीतल देसा भागीदार अभियन्ता, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत कर्णियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा को एक कर्णियों द्वारा कर्णों का प्रस्ताव करती है, जिसमें अपने पंजीकृत कार्यालय को पंजीकृत कार्यालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।
आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माधवदेव सार्वजनिक इंडिया एतद्वारा सीतल देसा भागीदार अभियन्ता, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत कर्णियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा को एक कर्णियों द्वारा कर्णों का प्रस्ताव करती है, जिसमें अपने पंजीकृत कार्यालय को पंजीकृत कार्यालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।
आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माधवदेव सार्वजनिक इंडिया एतद्वारा सीतल देसा भागीदार अभियन्ता, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत कर्णियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा को एक कर्णियों द्वारा कर्णों का प्रस्ताव करती है, जिसमें अपने पंजीकृत कार्यालय को पंजीकृत कार्यालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।
आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माधवदेव सार्वजनिक इंडिया एतद्वारा सीतल देसा भागीदार अभियन्ता, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत कर्णियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा को एक कर्णियों द्वारा कर्णों का प्रस्ताव करती है, जिसमें अपने पंजीकृत कार्यालय को पंजीकृत कार्यालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।
आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माधवदेव सार्वजनिक इंडिया एतद्वारा सीतल देसा भागीदार अभियन्ता, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत कर्णियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा को एक कर्णियों द्वारा कर्णों का प्रस्ताव करती है, जिसमें अपने पंजीकृत कार्यालय को पंजीकृत कार्यालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।
आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माधवदेव सार्वजनिक इंडिया एतद्वारा सीतल देसा भागीदार अभियन्ता, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत कर्णियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा को एक कर्णियों द्वारा कर्णों का प्रस्ताव करती है, जिसमें अपने पंजीकृत कार्यालय को पंजीकृत कार्यालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।
आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माधवदेव सार्वजनिक इंडिया एतद्वारा सीतल देसा भागीदार अभियन्ता, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत कर्णियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा को एक कर्णियों द्वारा कर्णों का प्रस्ताव करती है, जिसमें अपने पंजीकृत कार्यालय को पंजीकृत कार्यालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।
आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माधवदेव सार्वजनिक इंडिया एतद्वारा सीतल देसा भागीदार अभियन्ता, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत कर्णियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा को एक कर्णियों द्वारा कर्णों का प्रस्ताव करती है, जिसमें अपने पंजीकृत कार्यालय को पंजीकृत कार्यालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।
आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माधवदेव सार्वजनिक इंडिया एतद्वारा सीतल देसा भागीदार अभियन्ता, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत कर्णियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा को एक कर्णियों द्वारा कर्णों का प्रस्ताव करती है, जिसमें अपने पंजीकृत कार्यालय को पंजीकृत कार्यालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।
आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माधवदेव सार्वजनिक इंडिया एतद्वारा सीतल देसा भागीदार अभियन्ता, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत कर्णियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा को एक कर्णियों द्वारा कर्णों का प्रस्ताव करती है, जिसमें अपने पंजीकृत कार्यालय को पंजीकृत कार्यालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।
आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माधवदेव सार्वजनिक इंडिया एतद्वारा सीतल देसा भागीदार अभियन्ता, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत कर्णियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा को एक कर्णियों द्वारा कर्णों का प्रस्ताव करती है, जिसमें अपने पंजीकृत कार्यालय को पंजीकृत कार्यालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।
आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माधवदेव सार्वजनिक इंडिया एतद्वारा सीतल देसा भागीदार अभियन्ता, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत कर्णियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा को एक कर्णियों द्वारा कर्णों का प्रस्ताव करती है, जिसमें अपने पंजीकृत कार्यालय को पंजीकृत कार्यालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।
आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माधवदेव सार्वजनिक इंडिया एतद्वारा सीतल देसा भागीदार अभियन्ता, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत कर्णियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा को एक कर्णियों द्वारा कर्णों का प्रस्ताव करती है, जिसमें अपने पंजीकृत कार्यालय को पंजीकृत कार्यालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।
आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माधवदेव सार्वजनिक इंडिया एतद्वारा सीतल देसा भागीदार अभियन्ता, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत कर्णियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा को एक कर्णियों द्वारा कर्णों का प्रस्ताव करती है, जिसमें अपने पंजीकृत कार्यालय को पंजीकृत कार्यालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।
आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माधवदेव सार्वजनिक इंडिया एतद्वारा सीतल देसा भागीदार अभियन्ता, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत कर्णियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा को एक कर्णियों द्वारा कर्णों का प्रस्ताव करती है, जिसमें अपने पंजीकृत कार्यालय को पंजीकृत कार्यालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।
आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माधवदेव सार्वजनिक इंडिया एतद्वारा सीतल देसा भागीदार अभियन्ता, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत कर्णियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा को एक कर्णियों द्वारा कर्णों का प्रस्ताव करती है, जिसमें अपने पंजीकृत कार्यालय को पंजीकृत कार्यालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।
आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माधवदेव सार्वजनिक इंडिया एतद्वारा सीतल देसा भागीदार अभियन्ता, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत कर्णियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा को एक कर्णियों द्वारा कर्णों का प्रस्ताव करती है, जिसमें अपने पंजीकृत कार्यालय को पंजीकृत कार्यालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।
आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माधवदेव सार्वजनिक इंडिया एतद्वारा सीतल देसा भागीदार अभियन्ता, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत कर्णियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा को एक कर्णियों द्वारा कर्णों का प्रस्ताव करती है, जिसमें अपने पंजीकृत कार्यालय को पंजीकृत कार्यालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।
आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माधवदेव सार्वजनिक इंडिया एतद्वारा सीतल देसा भागीदार अभियन्ता, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत कर्णियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा को एक कर्णियों द्वारा कर्णों का प्रस्ताव करती है, जिसमें अपने पंजीकृत कार्यालय को पंजीकृत कार्यालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।
आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माधवदेव सार्वजनिक इंडिया एतद्वारा सीतल देसा भागीदार अभियन्ता, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत कर्णियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा को एक कर्णियों द्वारा कर्णों का प्रस्ताव करती है, जिसमें अपने पंजीकृत कार्यालय को पंजीकृत कार्यालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।
आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माधवदेव सार्वजनिक इंडिया एतद्वारा सीतल देसा भागीदार अभियन्ता, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत कर्णियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा को एक कर्णियों द्वारा कर्णों का प्रस्ताव करती है, जिसमें अपने पंजीकृत कार्यालय को पंजीकृत कार्यालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।
आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माधवदेव सार्वजनिक इंडिया एतद्वारा सीतल देसा भागीदार अभियन्ता, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत कर्णियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा को एक कर्णियों द्वारा कर्णों का प्रस्ताव करती है, जिसमें अपने पंजीकृत कार्यालय को पंजीकृत कार्यालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।
आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माधवदेव सार्वजनिक इंडिया एतद्वारा सीतल देसा भागीदार अभियन्ता, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत कर्णियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा को एक कर्णियों द्वारा कर्णों का प्रस्ताव करती है, जिसमें अपने पंजीकृत कार्यालय को पंजीकृत कार्यालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।
आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माधवदेव सार्वजनिक इंडिया एतद्वारा सीतल देसा भागीदार अभियन्ता, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत कर्णियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा को एक कर्णियों द्वारा कर्णों का प्रस्ताव करती है, जिसमें अपने पंजीकृत कार्यालय को पंजीकृत कार्यालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।
आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माधवदेव सार्वजनिक इंडिया एतद्वारा सीतल देसा भागीदार अभियन्ता, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत कर्णियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा को एक कर्णियों द्वारा कर्णों का प्रस्ताव करती है, जिसमें अपने पंजीकृत कार्यालय को पंजीकृत कार्यालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।
आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माधवदेव सार्वजनिक इंडिया एतद्वारा सीतल देसा भागीदार अभियन्ता, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत कर्णियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा को एक कर्णियों द्वारा कर्णों का प्रस्ताव करती है, जिसमें अपने पंजीकृत कार्यालय को पंजीकृत कार्यालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।
आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माधवदेव सार्वजनिक इंडिया एतद्वारा सीतल देसा भागीदार अभियन्ता, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत कर्णियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा को एक कर्णियों द्वारा कर्णों का प्रस्ताव करती है, जिसमें अपने पंजीकृत कार्यालय को पंजीकृत कार्यालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।

ஈரான் கடற்படையால் சிறைபிடிக்கப்பட்ட கேரள பெண் மாலும் நாடு திரும்பினார்

புதுடெல்லி, ஏப்.19- ஈரான் ராணுவத்தால் கடத்தப்பட்ட சிறைபிடிக்கப்பட்ட எம்எல்சி ஏர்லீஸ் சாக்கு கப்பலில் இருந்த 17 இந்தியர்களில் ஒருவரான பெண் பணியாளர் ஆன் தேஸ்லா ஜோசப் கொச்சி திரும்பினார்.

சிரியா தலைநகர் டமாஸ்கஸில் உள்ள ஈரான் நாட்டின் துரைக்கத்தின் மீது இஸ்ரேல் ராணுவம் கடந்த 17 தேதி வான்தாக்குதல் நடத்தியது. இதில் ஈரான் ராணுவ அதிகாரிகள் உட்பட 16 பேர் கொல்லப்பட்டனர்.

இதற்கு பதிலடி தரும் விதமாக துபாயில் இருந்து புறப்பட்ட இஸ்ரேல் நாட்டின் சாக்கு கப்பலை ஈரான் கடற்படை கடந்த 13ந் தேதி சிறைப்பிடித்தது.

‘எம்எல்சி ஏர்லீஸ்’ என்ற அந்த சாக்கு கப்பலில் மொத்தம் 25 மாலுமிகள் இருப்பதும், அவர்களில் 17 பேர் இந்தியர்கள் என்பதும் தெரியவந்தது.

இதையடுத்து இந்தியர்களை மீட்கும் முயற்சியில் மத்திய அரசு தீவிரமாக இறங்கியது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக ஈரான் அதிகாரிகளுடன் தொடர்ந்து தொடர்பில் இருப்பதாக மத்திய அரசின் அதிகாரப்பூர்வ வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

அதன் ஒரு பகுதியாக, ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சர் ஹொசைன் அமீர் அப்துல் வஹி யனை இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கர் தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்டு பேசினார்.

இந்த நிலையில் மத்திய அரசு எடுத்த தீவிர முயற்சியின் பலனாக ஈரான் கடற்படையால் சிறைபிடிக்கப்பட்ட 17 இந்தியர்களில் கேரளாவை சேர்ந்த பெண் மாலுமி ஒருவர் பத்திரமாக நாடு திரும்பியுள்ளார்.

கேரளாவின் திருச்சூரை சேர்ந்த ஆன் டொசா ஜோசப் என்பது இளம் மொழியில் விமானம் மூலம் நேற்று கொச்சி வந்தடைந்ததாக மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

இதகுறித்து இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் தரப்பில் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது-

“தெஹ்ரானில் உள்ள இந்திய தூதரகம் மற்றும் ஈரான் அரசின் ஒருங்கிணைந்த முயற்சியால் சாக்கு கப்பல் எம்எல்சி ஏர்லீஸ் இருந்த 17 இந்திய பணியாளர்களில் ஒருவரான கேரளாவின் திருச்சூரை சேர்ந்த ஆன் தேஸ்லா ஜோசப் கொச்சி சர்வதேச விமான நிலையத்துக்கு பாதுகாப்பாக வந்து சேர்ந்தார். கப்பலில் இருக்கும் மீதமுள்ள 16 இந்தியர்களுடன் தெஹ்ரானில் உள்ள இந்திய தூதரகம் தொடர்ந்து தொடர்பில் உள்ளது.

ENROLLMENT NOTICE

After ten days of the publication of this notice and within THREE months thereafter, I, **S.Anjana Devi** D/o, P.L. Shanmugam, aged 39, years, permanently residing at N0.9, Lake View second Street, Ayappa Nagar Madipakkam, Chennai-91 intend to move my enrolment as an Advocate moved before the Bar Council of Tamilnadu and Pudukcherry, Bar Council Buildings, High Court Campus, Chennai – 104. Those who have any valid objections may notify the same to the Bar Council within 10 days.

(S.ANJANA DEVI)

NAME CHANGE

நான் ஸ்ரீராம், த/பெ ராஜன், வயது 20. முகவரி: #20, நேரு தெரு, J. B. எஸ்டீட், ஆவடி சென்னை - 54 என்று முகவரியில் வகிக்கும் நான் இனி (ஸ்ரீராம் ராஜன்) என்று அழைக்கப்படுகிறேன். Affidavit Date: 18.04.24 at Chennai

பொது அறிவிப்பு
Mr. T.கந்தசாமி, S/O Mr.தங்கவேலம், ஆரியல நகர், எதுது செத்தின் தாமிட்டலவையுறைத்து விட்டேன் என இதன் மூலம் அறிவிக்கிறேன். டி.பி.என்.என்.476/23 & டி.பி.என்.என்.476/77, ஆண்டியாறு வரலாறு சிபாயம், திருப்பத்தூர் மண்டலம் உள்ளும் முகவரியில் உள்ள செத்தின் பட்டா வாங்கியது. VAO ஆல் உறுதிப்படுத்தி துறை பட்டா எண்.456. யாஜேய்சன் குடியிருப்பதால் சீர்திருத்த முகவரிக்கு அனுப்பியது வேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது. தற்போது மேலே குறிப்பிட்டுள்ள செத்தின் M/S மதுரீந்தரா ரூரல் ஹைஸ்கூல் ஸ்காலர்ஸ் விபி.இ.டீ.என்.480, 4வது தளம், கிளாஸ்ட்ரூ காம்ப்ளக்ஸ்-II, அண்ணாசாலை, நடத்தும், சென்னை-600035 என்ற முகவரியில் தெரியப்படுத்தவும். வேறுவிபி.இ.டீ.என்.480 க்கு செத்தின் மீது உரிமைகொண்டிருக்கிறேன். ஆதலால் ஆ.பேரவைகள், அடலாஸ் அல்லது ஏதேனும் இருந்தால் அதனை M/S மதுரீந்தரா ரூரல் ஹைஸ்கூல் ஸ்காலர்ஸ் விபி.இ.டீ.என்.480, 4வது தளம், கிளாஸ்ட்ரூ காம்ப்ளக்ஸ்-II, அண்ணாசாலை, நடத்தும், சென்னை-600035 என்ற முகவரியில் தெரியப்படுத்தவும். வேறுவிபி.இ.டீ.என்.480 க்கு செத்தின் மீது உரிமைகொண்டிருக்கிறேன். ஆதலால் ஆ.பேரவைகள், அடலாஸ் அல்லது ஏதேனும் இருந்தால் அதனை M/S மதுரீந்தரா ரூரல் ஹைஸ்கூல் ஸ்காலர்ஸ் விபி.இ.டீ.என்.480, 4வது தளம், கிளாஸ்ட்ரூ காம்ப்ளக்ஸ்-II, அண்ணாசாலை, நடத்தும், சென்னை-600035 என்ற முகவரியில் தெரியப்படுத்தவும். வேறுவிபி.இ.டீ.என்.480 க்கு செத்தின் மீது உரிமைகொண்டிருக்கிறேன். ஆதலால் ஆ.பேரவைகள், அடலாஸ் அல்லது ஏதேனும் இருந்தால் அதனை M/S மதுரீந்தரா ரூரல் ஹைஸ்கூல் ஸ்காலர்ஸ் விபி.இ.டீ.என்.480, 4வது தளம், கிளாஸ்ட்ரூ காம்ப்ளக்ஸ்-II, அண்ணாசாலை, நடத்தும், சென்னை-600035 என்ற முகவரியில் தெரியப்படுத்தவும்.

M/S மதுரீந்தரா ரூரல் ஹைஸ்கூல் ஸ்காலர்ஸ் விபி.இ.டீ.என்.480, 4வது தளம், கிளாஸ்ட்ரூ காம்ப்ளக்ஸ்-II, அண்ணாசாலை, நடத்தும், சென்னை-600035

‘எக்ஸ்’ தளத்துக்கு பாகிஸ்தானில் தடை

இஸ்லாமாபாத், ஏப்.19 பாகிஸ்தானில் எக்ஸ் தளத்துக்கு தற்காலிக தடை விதித்து அந்நாட்டு அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கான் கடந்த பிப்ரவரியில் கைது செய்யப்பட்ட சமயத்தில் எக்ஸ் தள சேவை பாகிஸ்தானில் முடக்கப்பட்டது. கடந்த இரண்டு மாதங்களாக பாகிஸ்தானில் எக்ஸ் தள சேவையில் பல்வேறு தடங்கல்

இருந்துவந்தன. இது தொடர்பாக வழக்கு தொடுக்கப்பட்ட நிலையில், வழக்கின் விசாரணையின்போது எக்ஸ் தளத்துக்கு தடை விதித்திருப்பதை இஸ்லாமாபாத் உயர் நீதிமன்றத்தில் பாகிஸ்தான் அரசு ஒப்புக்கொண்டுள்ளது. வழக்கின் விசாரணையின்போது, “பாகிஸ்தான் அரசின் சட்டபூர்வ உத்தரவுகளை எக்ஸ் நிறுவனம் கடைப்பிடிக்கத் தவறியது. எக்ஸ் தளத்தை தவறாகப் பயன்படுத்துவது

தொடர்பான கவலைகள் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டும். அதனை நிறுவனம் சரிசெய்யவில்லை. எனவேதான், தடை விதிக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. எக்ஸ் நிறுவனம் முக்கியமான பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதில் பாகிஸ்தான் அரசு அதிகாரிகளுடன் ஒத்துழைக்க தயக்கம் காட்டியது” என்று பாகிஸ்தான் அரசு வழக்கறிஞர் தடை குறித்து விளக்கமளித்தார்.

This advertisement is for information purposes only and neither constitutes an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities nor for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated March 20, 2024 (the “Letter of Offer” or “LOF”) filed with Bombay Stock Exchange Limited (“BSE”), and also filed with the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”) for information and dissemination on the SEBI’s website pursuant to the proviso to Regulation 3 of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (SEBI ICDR Regulations).

Ykot IYKOT HITECH TOOLROOM LIMITED

Our Company was originally incorporated as “Elcot-Hitech Toolroom Limited”, bearing CIN No. L27209TN1991PLC021330 vide Certificate of Incorporation dated 29th day of August 1991 under the provisions of the Companies Act, 1956. Subsequently, the Target Company has changed its name from “Elcot-Hitech Toolroom Limited” to “Ykot Hitech Toolroom Limited” and a fresh Certificate of Incorporation consequent upon change of name and objects was issued by Registrar of Companies, Chennai on December 29, 2000 under the Companies Act, 1956. For change in Name and Change in Registered Office please refer to “Chapter: General Information” on Page 33 of this Letter of Offer (“LOF”).

Registered Office: 131/2, Thiruneralai Road, Nagalkeni, Chromepet, Chennai – 600 044 Tamil Nadu, India. **Tel. No.** +91-44-43162280; **E-mail:** info@ykot.com; **Website:** www.ykot.com **Contact Person:** P Udayakumar, Company Secretary and Compliance Officer. **Corporate Identity Number:** L27209TN1991PLC021330

OUR PROMOTERS: MS ANJANA DUGAR, MS LIKHITTA DUGAR, MR SIDDHARTH NANDULAL, MR SUNIL CHANDRAKANT, MR RAJAPANDIAN, MR LAKSHNMANAN, MR BALASUBRAMANION R, MR RAM KUMAR S R, MS RAJALAKSHMI I, MR PANDYA K V AND ELECTRONICS CORPORATION OF TAMIL NADU LIMITED

ISSUE OF UP TO 1,41,96,000 PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH OF OUR COMPANY (THE “RIGHTS EQUITY SHARES”) FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 7 PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 2 PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING TO ₹ 993.72 LACS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 7 (SEVEN) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 3 (THREE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON APRIL 03, 2024 (“RECORD DATE”) (THE “ISSUE”). FOR FURTHER DETAILS, SEE “TERMS OF THE ISSUE” ON PAGE 127 OF THIS LETTER OF OFFER.

*Assuming full subscription with respect to Rights Equity Shares

NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY		
ISSUE OPENS ON: WEDNESDAY APRIL 24, 2024	LAST DATE FOR ON MARKET RENUNCIATION** TUESDAY, APRIL 30, 2024	ISSUE CLOSES ON* WEDNESDAY, MAY 08, 2024

*Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncee(s) on or prior to the Issue Closing Date.
*Our Board or a duly authorized committee thereof will have the right to extend the Issue period as it may determine from time to time but not exceeding 30 (thirty) days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date). Further, no withdrawal of Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.

THE ISSUE PRICE OF EACH EQUITY SHARE IS ONE POINT FOUR TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE

ASBA*	Simple, Safe, Smart way of application - Make use of it!!!	*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For further details, check section on ASBA below.
--------------	--	---

Facilities for application in this Issue:
ASBA Facility:
In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, the Rights Issue Circulars and the ASBA Circulars all investors desiring to make an application in this issue are mandatorily required to use the ASBA process only. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For details refer to “Terms of the Issue - Making of an application through the ASBA process” on page 130 of the Letter of Offer.
Please note that subject to SCSBs complying with the requirements of the SEBI circular bearing reference number CIR/CFD/DIL/13/2012 dated September 25, 2012, within the periods stipulated therein, Applications may be submitted at the Designated Branches of the SCSBs. Further, in terms of the SEBI circular bearing reference number CIR/CFD/DIL/12/013 dated January 2, 2013, it is clarified that for making Applications by SCSBs on their own account using ASBA facility, each such SCSB should have a separate account in its own name with any other SEBI registered SCSB(s). Such account shall be used solely for the purpose of making an Application in this Issue and clear demarcated funds should be available in such account for such an Application.
CREDIT OF RIGHTS ENTITLEMENTS IN DEMAT ACCOUNTS OF ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS
Pursuant to provisions of the SEBI ICDR Regulations and the SEBI Rights Issue Circulars and in terms of the Letter of Offer, the Rights Entitlements of the Eligible Equity Shareholders will be credited in their respective demat account and shall be admitted for trading on the Stock Exchange under the ISIN INE079L20011 subject to requisite approvals. For details of credit of the Rights Entitlements, see “Terms of the Issue - Credit of Rights Entitlements in demat accounts of Eligible Equity Shareholders” on page 139 of the Letter of Offer.
Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialised form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of subscribing to Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two Working Days prior to the Issue Closing Date, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date. The Shareholder who failed to provide their demat details in the stipulated time then their rights entitlement shall lapse and shall not be eligible to apply in this issue.
The Eligible Equity Shareholders shall send a letter to the Registrar containing the name(s), address, e-mail address, contact details and the details of their demat account along with copy of self-attested PAN and self-attested client master sheet of their demat account either by email, post, speed post, courier, or hand delivery at www. https://rights.cameoindia.com/ykot/ so as to reach to the Registrar no later than two Working Days prior to the Issue Closing Date.
Prior to the Issue Opening Date, the Rights Entitlements of those Eligible Equity Shareholders, among others, who hold Equity Shares in physical form, and whose demat account details are not available with our Company or the Registrar, shall be credited in a demat suspense escrow account opened by our Company.


PROCEDURE FOR APPLICATION: In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, SEBI Rights Issue Circulars and ASBA Circulars, all investors desiring to make an application in this issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through ASBA. For details of procedure for application by the resident eligible shareholders holding equity shares in physical form as on record date, please see “Procedure for application by eligible equity shareholders holding equity shares in physical form” on page 240 of the Letter of Offer.
Procedure for Application through the ASBA process: Investors desiring to make an Application in this Issue through ASBA process, may submit the Application Form to the Designated Branch of the SCSB or online/electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) for authorising such SCSB to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts. Investors should ensure that they have correctly submitted the Application Form, or have otherwise provided an authorisation to the SCSB, via the electronic mode, for blocking funds in the ASBA Account equivalent to the Application Money mentioned in the Application Form, as the case may be, at the time of submission of the Application. For the list of banks which have been notified by SEBI to act as SCSBs for the ASBA process, please refer to https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmid=34. For details on Designated Branches of SCSBs collecting the Application Form, please refer the above-mentioned link.
Application by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form: Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialised form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of subscribing to Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two Working Days prior to the Issue Closing Date, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date.

PLEASE NOTE THAT THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS WHO HOLD EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM AS ON RECORD DATE AND WHO HAVE NOT FURNISHED THE DETAILS OF THEIR RESPECTIVE DEMAT ACCOUNTS TO THE REGISTRAR OF OUR COMPANY AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE ISSUE CLOSING DATE, SHALL NOT BE ELIGIBLE TO MAKE AN APPLICATION FOR RIGHTS EQUITY SHARES AGAINST THEIR RIGHTS ENTITLEMENTS WITH RESPECT TO THE EQUITY SHARES HELD IN PHYSICAL FORM.
Allotment of rights equity shares in dematerialised form: Please note that the rights equity shares applied for in this issue can be allotted only in dematerialised form and to the same demat account in which our equity shares are held by such investor on the record date.
Despatch of the Abbreviated Letter of Offer (ALOF) and application: The despatch of the ALOF and the application form was completed on April 16, 2024 by the Registrar to the Issue.
Credit of Rights Entitlements in demat accounts of Eligible Equity Shareholders: In accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circular, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialized form only. Prior to the Issue Opening Date, our Company shall credit the Rights Entitlements to (i) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholders holding the Equity Shares in dematerialised form; and (ii) a demat suspense escrow account opened by our Company, for the Eligible Equity Shareholders which would comprise Rights Entitlements relating to (a) Equity Shares held in a demat suspense account pursuant to Regulation 39 of the SEBI Listing Regulations; or (b) Equity Shares held in the account of IEPF authority; or (c) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholder which are frozen or details of which are unavailable with our Company or with the Registrar on the Record Date; or (d) Equity Shares held by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date where details of demat accounts are not provided by Eligible Equity Shareholders to our Company or Registrar; or (e) credit of the Rights Entitlements returned/reversed/failed; or (f) the ownership of the Equity Shares under dispute, including any court proceedings, as applicable or (g) non-institutional equity shareholders in the United States.
Applications on Plain Paper under ASBA process : An Eligible Equity Shareholder who is eligible to apply under the ASBA process may make an Application to subscribe to this issue on plain paper. An Eligible Equity Shareholder shall submit the plain paper Application to the Designated Branch of the SCSB for authorising such SCSB to block Application Money in the said bank account maintained with the same SCSB. Applications on plain paper will not be accepted from any address outside India.
Alternatively, Eligible Equity Shareholders may also use the Application Form available online on the websites of our Company, the Registrar to the Issue or the Stock Exchanges to provide requisite details.

Please note that the Eligible Equity Shareholders who are making the Application on plain paper shall not be entitled to renounce their Rights Entitlements and should not utilize the Application Form for any purpose including renunciation even if it is received subsequently.
The application on plain paper, duly signed by the Eligible Equity Shareholder including joint holders, in the same order and as per specimen recorded with his bank, must reach the office of the Designated Branch of the SCSB before the Issue Closing Date and should contain the following particulars:
• Name of our Issuer, being Iykot Hitech Toolroom Limited; • Name and address of the Eligible Equity Shareholder including joint holders (in the same order and as per specimen recorded with our Company or the Depository); • Registered Folio Number/ DP and Client ID No.; • Number of Equity Shares held as on Record Date; • Allotment option preferred - only Demat form; • Number of Rights Equity Shares identified to; • Number of Rights Equity Shares applied for; • Number of Additional Rights Equity Shares applied for, if any; • Total number of Rights Equity Shares applied for within the Right Entitlements; • Total amount paid at the rate of ₹ 1.75/- per Rights Equity Share; • Details of the ASBA Account such as the account number, name, address and branch of the relevant SCSB; • In case of NR Eligible Equity Shareholders making an application with an Indian address, details of the NRE/PNR/NRO Account such as the account number, name, address and branch of the SCSB with which the account is maintained; • Except for Applications on behalf of the Central or State Government, the residents of Sikkim and officials appointed by the courts, PAN of the Eligible Equity Shareholder and for each Eligible Equity Shareholder in case of joint names, irrespective of the total value of the Rights Equity Shares applied for pursuant to the Issue. Documentary evidence for exemption to be provided by the applicants; • Authorisation to the Designated Branch of the SCSB to block an amount equivalent to the Application Money in the ASBA Account; • Signature of the Eligible Equity Shareholder (in case of joint holders, to appear in the same sequence and order as they appear in the records of the SCSB); • Additionally, all such Applicants are deemed to have accepted the following:
“We understand that neither the Rights Entitlement nor the Rights Equity Shares have been, and will be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (“US Securities Act”) or any United States state securities laws, and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States or to the territories or possessions thereof (“United States”) or to, or for the account or benefit of a United States person as defined in the Regulation S of the US Securities Act (“Regulation S”). I/ we understand the Rights Equity Shares referred to in this application are being offered in India but not in the United States. I/ we understand the offering to which this application relates is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or Rights Entitlement for sale in the United States, or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said Rights Equity Shares or Rights Entitlement in the United States. Accordingly, I/ we understand this application should not be forwarded to or transmitted in or to the United States at any time. I/ we confirm that I/ we are not in the United States and understand that neither us, nor the Registrar or any other person acting on behalf of us will accept subscriptions from any person, or the agent of any person, who appears to be, or who we, the Registrar or any other person acting on behalf of us have reason to believe is a resident of the United States “U.S. Person” (as defined in Regulation S) or is ineligible to participate in the Issue under the securities laws of their jurisdiction.

Listing and trading of the Equity Shares to be issued pursuant to this Issue
The existing Equity Shares are listed and traded on BSE (Scrip code: 522245) under the ISIN: INE079L01013. The Rights Equity Shares shall be credited to a temporary ISIN which will be frozen until the receipt of the final listing/trading approvals from the Stock Exchanges. Upon receipt of such listing and trading approvals, the Equity Shares shall be debited from such temporary ISIN and credited to the new ISIN for the Equity Shares and thereafter be available for trading and the temporary ISIN shall be permanently deactivated in the depository system of CDSL and NSDL.
Disclaimer clause of BSE: “It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited.”
Availability of issue materials: In accordance with the SEBI ICDR Regulations, the Abbreviated Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other issue material will be sent/ dispatched only to the Eligible Equity Shareholders who have provided Indian address and who have made a request in this regard. In case such Eligible Equity Shareholders have provided their valid e-mail address, the Abbreviated Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other issue material will be sent only to their valid e-mail address and in case such Eligible Equity Shareholders have not provided their e-mail address, then the Abbreviated Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other issue material will be dispatched, on a reasonable effort basis, to the Indian addresses provided by them.
Investors can access the Letter of Offer, the Abbreviated Letter of Offer and the Application Form (provided that the Eligible Equity Shareholder is eligible to subscribe for the Equity Shares under applicable laws) on the websites of:
a) our Company at www.ykot.com; b) the Registrar to the Issue at www. https://rights.cameoindia.com/ykot/; and c) the Stock Exchange at www.bseindia.com.
Allotment Banker Account – ICICI Bank Limited
Bankers to the Issue and Refund Banker – ICICI Bank Limited
For Risk Factors and other details, kindly refer page No. 19 of the Letter of Offer

Other important links and helpings
The investors can visit following links for the below-mentioned purposes:
a. Frequently asked questions and online/electronic dedicated investor helpdesk for guidance on the Application process and resolution of difficulties faced by the investors: www. https://rights.cameoindia.com/ykot/
b. Update of Indian address/ e-mail address/ phone or mobile number in the records maintained by the Registrar or our Company: www. https://rights.cameoindia.com/ykot/
c. Update of demat account details by Eligible Equity Shareholders holding shares in physical form: www. https://rights.cameoindia.com/ykot/
d. Submission of self-attested PAN, client master sheet and demat account details by non-resident Eligible Equity Shareholders: www. https://rights.cameoindia.com/ykot/

REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
 <p>CAMEO CORPORATE SERVICES LIMITED Subramanian Building, No. 01, Club House Road, Chennai- 600 002, Tamil Nadu, India. Telephone: +91 44 4002 0700/ 0710/ 2846 0390 Facsimile: N.A. Investor: cameo@cameoindia.com; Website: www.cameoindia.com; Investor registration e-mail: investor@cameoindia.com Contact Person: Sreepriya K.; SEBI Registration No.: INR000003753; Validity of Registration: Permanent</p>	<p>P Udayakumar, Company Secretary and Compliance Officer 131/2, Thiruneralai Road, Nagalkeni, Chromepet, Chennai – 600 044, Tamil Nadu Tel. No. +91 44-43162280; Email: info@ykot.com</p> <p>Investor may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving complete details such as name, address of the Applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Form, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA Investors. For details on the ASBA process, see “Terms of the Issue” on page 127 of the Letter of Offer.</p>

For IYKOT HITECH TOOLROOM LIMITED
On behalf of Board of Directors
P UDAYAKUMAR
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Chennai
Date: April 18, 2024
YKOT HITECH TOOLROOM LIMITED is proposing, subject to market conditions and other considerations, to make a rights issue of its Equity Shares, and has filed a Letter of Offer with BSE Limited on April 18, 2024. The letter of offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the stock exchange at www.bseindia.com, the Company website at www.ykot.com and the website of registrar at www. https://rights.cameoindia.com/ykot. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer filed with the SEBI and the stock exchanges, including the section titled “Risk Factors” on Page 19 of the Letter of Offer, for details of the same, when available.

This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer or sale of securities in any jurisdiction, including the United States, and any securities described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the Company and that will contain detailed information about the Company and management, as well as financial statements. However, no public offering of securities is being made in the United States.